

कृपया ध्यान दीजिए :

- 1। कुछ प्रश्नों के विकल्पात्मक उत्तर भी हो सकते हैं। इस अंक योजना में दिए गए उत्तर निदर्शनात्मक हैं। इनके अतिरिक्त भी संदर्भानुसार सही उत्तर हो सकते हैं, अतः अंक दिए जाएँ।
- 2। अनुच्छेद अथवा श्लोकों पर आधारित प्रश्न अवबोधनात्मक हैं। विद्यार्थी अनुच्छेद में दिए गए शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके लिए भी अंक दिए जाएँ। विद्यार्थी उत्तर देते समय उपयुक्त विभक्ति अथवा वचन का प्रयोग नहीं करते तो अंशतः अंक काटे जाएँ संपूर्ण नहीं।
- 3। त्रुटिपूर्ण वर्तनी अथवा व्याकरणात्मक प्रयोगों के लिए अनुपाततः अंक काटे जाएँ न कि पूरे अंक।
- 4। आंशिक दृष्टि से सही उत्तरों के लिए भी अंशतः अंक अवश्य दिए जाएँ।
- 5। खण्ड 'ख' में (रचनात्मक कार्यम्) के अन्तर्गत 'चित्र वर्णन' व 'अनुच्छेद लेखन' में विकल्प समझा जाए। बच्चों ने जो भाग भी किया हो अंक दिए जाएँ। वाक्य संरचना प्रमुख है न कि वाक्य का सौंदर्य तत्त्व। आंशिक वाक्य-शुद्धता के लिए भी अंक दिए जाएँ।

संकेतात्मक उत्तर व अंक विभाजन :

खण्डः 'क' (Section-A)(अपठित अवबोधनम्)

15

- | | | |
|-----|--|----------------------------|
| 1 I | एकपदेन उत्तरत। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक।
क उद्यानं
ख फलानि | $1 \times 2 = 2$ |
| II | पूर्णवाक्येन उत्तरत - दो प्रश्न। प्रत्येक भाग के लिए 2 अंक।
(i) बालान् ।
(ii) फलानि । | $2 \times 2 = 4$ |
| III | प्रदत्तविकल्पेभ्यः उचितं उत्तरं चित्वा लिखत- चार प्रश्न। प्रत्येक भाग के लिए $\frac{1}{2}$ अंक।
क(ii) वानराः
ख(iii) बालिकायै
ग(iii) भवन्ति / (iii) क्रीडन्ति
घ(ii) अधः | $\frac{1}{2} \times 4 = 2$ |
| IV | शीर्षकं लिखत 'प्रसन्नाः वानराः' अथवा 'मित्रता' अथवा अन्य उपयुक्त शीर्षक। | 2 |
| 2 I | एकपदेन उत्तरत। सही उत्तर के लिए 1 अंक।
कार्याणि | 1 |
| II | पूर्णवाक्येन उत्तरत - दो प्रश्न। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक।
(i) मनोरथैः ।
(ii) मृगाः । | $1 \times 2 = 2$ |
| III | प्रदत्तविकल्पेभ्यः उचितं उत्तरं चित्वा लिखत- दो प्रश्न। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक।
क(ii) उद्यमेन
ख(iii) सिंहस्य | $1 \times 2 = 2$ |

खण्डः 'ख' (Section-B)(रचनात्मक कार्यम्)

15

3 पत्रलेखनम् - 10 रिक्तस्थान । प्रत्येकभाग के लिए 1/2 अंक ।

1/2 × 10 = 5

- (i) छात्रावासतः
- (ii) प्रियमित्र!
- (iii) सस्नेहं
- (iv) कुशली
- (v) अपि
- (vi) सह
- (vii) त्रिपुराराज्यम्
- (viii) आगत्य
- (ix) भवान्
- (x) श्यामलेशः

4 चित्रवर्णनम् अथवा अनुच्छेदलेखनम्

2 × 5 = 10

बच्चों से सरल, संक्षिप्त वाक्य पूर्ति अपेक्षित है। केवल वाक्य की शुद्धता देखी जाए। इस प्रश्न का प्रमुख उद्देश्य वाक्य रचना है। वाक्य लघु अथवा दीर्घ हो यह महत्वपूर्ण नहीं। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होने पर पूर्ण अंक दिए जाएँ। मंजूषा में दिए गए शब्द सहायतार्थ हैं, बच्चे शब्द चुने अथवा नहीं - आवश्यक नहीं। वे स्वयं शब्दों का प्रयोग कर वाक्य -निर्माण कर सकते हैं। बच्चे स्वयं भी मंजूषा में दिए गए शब्दों की विभक्तियाँ आदि भी बदल सकते हैं अतः अंक दिए जाएँ। त्रुटियों के अंक अंशतः काटे जाएँ। पूर्णतया शुद्ध होने पर ही 10 अंक दिए जाएँ। प्रत्येक वाक्य के लिए 2 अंक हैं।

अथवा (OR) अनुच्छेदलेखनम्

यह विकल्प सबके लिए दिया गया है। बच्चे स्वयं भी मंजूषा में दिए गए शब्दों की विभक्तियाँ आदि बदल सकते हैं। अंक दिए जाएँ। इस प्रश्न के 10 अंक हैं। प्रत्येक वाक्य के लिए 2 अंक हैं।

खण्डः 'ग' (Section-C) (अनुप्रयुक्त व्याकरणम्)

30 अंकाः

5 संधि-संधिच्छेद - आंशिक दृष्टि से सही उत्तर के लिए आंशिक अंक अवश्य दिए जाएँ। प्रत्येक के लिए 1 अंक है।

- (i) यद्यपि
- (ii) नयनं
- (iii) जगत् + ईश्वरः
- (iv) मृगाः + चरन्ति अथवा मृगास्+चरन्ति

1 × 4 = 4

6 समास - इस प्रश्न का मूल उद्देश्य 'समस्तपद' अथवा 'विग्रह' की समझ है। प्रत्येक के लिए 1 अंक है।

1 × 5 = 5

- क (iii) माता च पिता च
- ख (ii) दत्तधनः
- ग (iii) पीतं दुग्धं यया सा
- घ (i) अनुमृगम्
- ङ (iii) चित्रेण सहितम्

7 प्रकृति -प्रत्यय - संबंधी इस प्रश्न में बच्चे केवल उत्तर लिख सकते हैं। अतः पूर्ण अंक दिए जाएँ। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक।

1×5=5

- क (i) पठन्
ख (ii) वर्धमानायै
ग (ii) मानव+ तल्
घ (ii) चपलत्वम्
ङ (iii) तपस्विनी

8 अव्यय - उत्तर विकल्पात्मक हो सकते हैं। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक

1×5=5

- (i) कुत्र /यत् (ii) मा /श्वः (iii) ह्यः (iv) श्वः (v) यत्

9 संख्या संबंधी इस प्रश्न में प्रत्येक रिक्तस्थान के लिए 1 अंक है।

1×5=5

- (i) एकम् (ii) त्रीणि (iii) एकस्याः (iv) द्वे (v) चत्वारः

10 अशुद्धि संशोधन इस प्रश्न में प्रत्येक रिक्तस्थान के लिए 1 अंक है।

1×6=6

- क (ii) पुरुषौ ख (iii) अकूर्दन् ग (iv) सः
घ (ii) अगच्छाम ङ (ii) युवाम् च (ii) कूर्दति

खण्डः 'घ' (Section-D)(पठित-अवबोधनम्)

30 अङ्काः

11 इस प्रश्न का मूल उद्देश्य अवबोधन परीक्षण है। बच्चे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण अंक दिए जाएँ।
आंशिक सही होने पर भी आंशिक अंक दिए जाएँ।

गद्यांशः

I) एकपदेन उत्तरत -
विषादं

1

II) पूर्णवाक्येन उत्तरत - एक प्रश्न के लिए 1 अंक।
.... धैर्यम्....।

1

III) यथानिर्देशम् उत्तरत - दो प्रश्न। प्रत्येक के लिए 1 अंक।
क (i) भाययि ख (iii) उच्चैः

1×2=2

12 श्लोक

I) एकपदेन उत्तरत -
आचारः/(सदाचारः)

1

II) पूर्णवाक्येन उत्तरत - एक प्रश्न के लिए 1 अंक।
.... प्राणेभ्यः / आत्मभ्यः....।

1

III) यथानिर्देशम् उत्तरत - दो प्रश्न। प्रत्येक के लिए 1 अंक।
क (iii) प्रथमः ख (ii) बुद्धिमताम्/(iii)सज्जनानाम्

1×2=2

13 नाट्यांशः

I) एकपदेन उत्तरत -

भूमौ

1

II) पूर्णवाक्येन उत्तरत - एक प्रश्न के लिए दो अंक।

.....द्रोणपुत्रेण / (अश्वत्थाम्ना)

1

III) यथानिर्देशम् उत्तरत - दो प्रश्न। प्रत्येक के लिए 1 अंक।

क (ii) प्रचण्डानलशिखाः ख (iii) विमुच्यते

1×2=2

14 भाव-संबंधी इस प्रश्न में बच्चे केवल उत्तर लिख सकते हैं।

क (i) समयः निरन्तरं गतिशीलः।

ख (iii) सृष्टौ सर्वे प्राणिनः प्रसन्नाः भवेयुः।

1×2=2

15 अन्वय-संबंधी इस प्रश्न में बच्चे मञ्जूषा से उत्तर चुन सकते हैं। बच्चे केवल उत्तर लिख सकते हैं।

क (i) एषा (ii) सर्वे

ख (i) तरतु (ii) सर्वत्र

1×4=4

16 प्रश्ननिर्माण -संबंधी इस प्रश्न में बच्चे केवल प्रश्नवाचक शब्द लिख सकते हैं। व्याकरण वर्तनी आदि की दृष्टि से अनुपाततः अंक काटे जाएँ न कि पूर्ण। इस प्रश्न में अवबोधन प्रमुख है तथा विकल्पात्मक उत्तर हो सकते हैं।

(i) किम् (ii) कः (iii) के (iv) कस्य (v) कति

1×5=5

17 कथाक्रम -संबंधी इस प्रश्न के उत्तर में वाक्यों में तार्किक संबंध हो। प्रश्न बोधात्मक है स्मृति आधारित नहीं। केवल वाक्यक्रम लिखने पर भी अंक दिए जाएँ। वर्तनी आदि द्रष्टव्य नहीं। ध्यान रखें नीचे दिया गया क्रम केवल निदेशात्मक है।

(i) एकदा राजहंसः काकस्य ध्वनिं श्रुत्वा क्रुद्धः भवति।

(ii) सः काकं अनेकानि कटुवचनानि कथयति।

(iii) तत् श्रुत्वा काकः कुपितः भवति।

(iv) तयोः मध्ये विवादः भवति।

(v) अन्ये अनेके पक्षिणः अपि प्रविशन्ति।

(vi) पक्षिणां राजा 'कः' इति विवादः अभवत्।

(vii) सर्वे आत्मप्रशंसां कुर्वन्ति।

(viii) प्रकृतिमातुः आज्ञया सर्वे मिलित्वा आनन्देन निवसन्ति।

1/2×8=4

यह सामान्य क्रम है। अन्य तार्किक क्रम होने पर भी अंक दिए जाएँ। आंशिक उत्तर के लिए भी अंक दिए जाएँ।

18 शब्दार्थ -संबंधी इस प्रश्न में बच्चे केवल क्रमसंख्या लिख सकते हैं अंक दिए जाएँ। वर्तनी आदि की दृष्टि से अंक अंशतः ही काटे जाएँ। प्रत्येक भाग के लिए 1 अंक

1×3=3

क (ii) ज्वालयति

ख (iv) ऐश्वर्यम् / (iii) बाहुल्यम्

ग (i) श्यामवर्णीयः
